

Madhepura College Madhepura

Dept. of Education

BNMU, Madhepura

B.Ed 1st year

EPC-2

Drama and Art in Education

मुगलकालीन वास्तुकला

मुगल काल के अधिकांश भवन भी भारतीय-इस्लामी शैली में बनाए गए हैं और इन पर ईरानी शैली का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है | चूंकि मुगल सम्राटों के पास अकूत धन संपत्ति का वैभव था, अतः इन्होंने भव्य मनोरम भवनों, उद्यानों तथा नगरों का निर्माण करवाया | मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. इमारतों के चारों ओर उद्यान तथा उसमें बहते हुए जल की कृत्रिम व्यवस्था |
2. सौंदर्य को बनाए रखने हेतु लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का उचित अनुपात |
3. भवनों के शिखरों पर छतरियों तथा गुंबदों का निर्माण |
4. अलंकरण की विशेष व्यवस्था |
5. धर्मनिरपेक्षता के कारण भवनों में इस्लाम में वर्जित जीवों की आकृतियों का चित्रांकन |

राज्य संरक्षित कला होने के कारण मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कला का पतन प्रारंभ हो गया | मुगलकालीन स्थापत्य कला के उदाहरणों में कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं-

हुमायूँ का मकबरा-

हुमायूँ की पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा दिल्ली में निर्मित यह मकबरा सफेद संगमरमर से बना है | इसके गुंबद विशेष रूप से दर्शनीय है | इसमें श्वेत, काले तथा लाल- तीनों प्रकार

हुमायूँ का मकबरा




स्थान
निर्माण

नई दिल्ली, भारत

सन. 1565

के संगमरमर का प्रयोग हुआ है | वास्तव में यह भारतीय तथा फारसी स्थापत्य कला शैलियों का उत्कृष्ट समन्वय दर्शाता है |

आगरा का किला- यमुना नदी के तट पर आगरा में इस विशाल किले का निर्माण अकबर ने कराया था | अर्धवृत्ताकार आकार के इस किले में चार प्रवेश द्वार हैं तथा उसकी दीवारें 70 फुट ऊंची है | लगभग डेढ़ मील के क्षेत्र में विस्तृत किले के अंदर 500 से भी अधिक कमरे हैं | यद्यपि अकबर ने उनका निर्माण लाल पत्थर से करवाया था, लेकिन शाहजहां ने इनमें से कई कमरों को श्वेत संगमरमर में परिवर्तित करवा दिया था |



लाहौर का किला- आगरा किले के लगभग समान लाहौर का किला संगमरमर पत्थर से निर्मित है इसकी दीवारों पर पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं इस किले की स्थापत्य पर हिंदू प्रभाव दृष्टिगत होता है |




फतेहपुर सीकरी - अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी नवीन राजधानी बनाई थी | उसने वहां अनेक भवनों का निर्माण कराया, जिसमें से बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, दीवाने खा, बीरबल का महल, खास महल, जोधाबाई का महल, पंचमहल, हवामहल, सलीम चिश्ती का मकबरा आदि वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं |



ताजमहल-

आगरा में यमुना नदी के तट पर 18 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित 1900x1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में विस्तृत यह इमारत मुगलकालीन स्थापत्य का श्रेष्ठतम नमूना है | शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनाया गया यह भवन श्वेत संगमरमर से बना है | इसके चारों कोनों पर आकर्षक मीनारें बनी हुई हैं | पूरी इमारत में उत्कृष्ट अलंकरण दिखाई पड़ता है |



लाल किला दिल्ली-

शाहजहां द्वारा निर्मित 3200x1600 वर्ग फीट क्षेत्रफल का या विशालकाय किला मुगल इमारतों में विशिष्ट स्थान रखता है | ऊंचे प्राचीरों से घिरी इस इमारत के भीतर दीवाने खास, दीवाने आम, रंग महल आदि की सजावट उत्कृष्ट है |

